

Isa

Chapter 25

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

עֲצוֹת יוֹזְנָה פְּלֵא עֲשִׂיתָ כִּי שְׁמִנְךָ אֹרְחָה אֲרוֹמְמֶךָ אֲנִי אֱלֹהֵי יְהוָה 1
योजनाएं योजनाएं आश्चर्यकर्म किया-है-तूने क्योंकि नाम-तेरा धन्यवाद-दूंगा ऊंचा-करूंगा-तुझे तू एलोहीम-मेरे यहोवा
H6098 H6382 H8034 H3034 H0544 H0530 H0430 H3068

אֲמֵן אֱמוּנָה מִרְחֹק
सच्चाई विश्वासयोग्यता से-प्राचीनकाल
H0544 H0530 H7350

हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूँ और मैं तुझे सम्मान देता हूँ। तूने अनेक अद्भुत कार्य किये हैं। जो भी शब्द तूने बहुत पहले कहे थे वे पूरी तरह से सत्य हैं। हर बात वैसी ही घटी जैसे तूने बताया थी।

מִעִיר זָרִים אֲרָמוֹן לְמַפְלָה בְּצוֹרָה קָרְיָה לְזָל מִעִיר שְׂמֹנָה כִּי 2
से-नगर परदेशियों-का महल में-खंडहर गढ़वाला नगर में-ढेर से-नगर बनाया-है-तूने क्योंकि
H0759 H1219 H7151 H1530

יְבֵנָה לָא לְעוֹלָם
बनाया-जाएगा नहीं सदा-के-लिए
H1129 H3808 H5769

तूने नगर को नष्ट किया। वह नगर सुदृढ़ प्राचीनों से संरक्षित था। किन्तु अब वह मात्र पत्थरों का ढेर रह गया। परदेशियों का महल नष्ट कर दिया गया। अब उसका फिर से निर्माण नहीं होगा।

יִירְאוּךָ עָרֵיצִים גּוֹיִם קָרְיָה עֶז שְׂכַבְרֹתָי קֶן עַל- 3
डरेंगे-तुझसे भयानक जातियों-का नगर शक्तिशाली लोग- महिमा-देगे-तुझे यही इसलिए-
H3372 H6184 H7151 H5794 H3513

सामर्थी लोग तेरी महिमा करेंगे। क्रूर जातियों के नगर तुझसे डरेंगे।

צָל מְזֶרֶם מַחֲסֵה לוֹ בְּצָרָה לְאִבּוֹן מְעוֹז לְדָל מְעוֹז הָיִיתָ כִּי- 4
छाया से-आंधी शरणस्थान उसके संकट-में- के-लिए-कंगाल गढ़ के-लिए-दीन गढ़ रहा-है-तू क्योंकि-
H6738 H2230 H4268 H0034 H4581 H1800 H4581 H1961

קִיר: כְּזֶרֶם עָרֵיצִים רוּחַ כִּי מִחֲרָב
दीवार जैसे-आंधी भयानकों-की सांस क्योंकि से-तपन
H7023 H2230 H6184 H7307

यहोवा निर्धन लोगों के लिये जो जरूरतमंद हैं, तू सुरक्षा का स्थान है। अनेक विपत्तियाँ उनको पराजित करने को आती हैं किन्तु तू उन्हें बचाता है। तू एक ऐसा भवन है जो उनको तूफानी वर्षा से बचाता है और तू एक ऐसी हवा है जो उनको गर्मी से बचाती है। विपत्तियाँ भयानक आँधी और घनघोर वर्षा जैसी आती हैं। वर्षा दीवारों से टकराती है और नीचे बह जाती है किन्तु मकान में जो लोग हैं, उनको हानि नहीं पहुँचती है।

עָרֵיצִים זְמִיר עָב בְּצָל חָרָב תְּכַנִּיעַ זָרִים שְׂאוֹן בְּצִיּוֹן כְּחָרָב 5
भयानकों-का गीत बादल-की में-छाया तपन दबाएगा-तू परदेशियों-का शोर में-सूखे-स्थान जैसे-तपन
H6184 H2158 H5645 H6738 H3665 H7588 H6724

פַּ יַעֲנֶה:
— शांत-होगा

नारे लगाते हुए शत्रु ने ललकारा। घोर शत्रु ने चुनौतियाँ देने को ललकारा। किन्तु तूने हे परमेश्वर, उनको रोक लिया। वे नारे ऐसे थे जैसे गर्मी किसी खुशक जगह पर। तूने उन क्रूर लोगों के विजय गीत ऐसे रोक दिये थे जैसे सघन मेघों की छाया गर्मी को दूर करती है।

6
 מִשְׁתָּהּ שְׂמָנִים מִשְׁתָּהּ הַזֶּה בְּהַר לְכֹל- צְבָאוֹת יְהוָה וְעֹשֶׂה
 भोज चिकनी-वस्तुओं-का भोज इस पर-पर्वत लोगों के-लिए-सब- सेनाओं-का यहोवा और-बनाएगा
[H4960](#) [H8081](#) [H4960](#) [H2088](#) [H2022](#) [H3605](#) [H3068](#)

שְׂמָנִים מְמָחִים שְׂמָנִים שְׂמָרִים מְזַקְקִים:
 चिकनी-वस्तुएं मज्जायुक्त पुरानी-दाखमधु निर्मल पुरानी-दाखमधु-का
[H8081](#) [H8105](#) [H8105](#) [H2212](#)

उस समय, सर्वशक्तिमान यहोवा इस पर्वत के सभी लोगों के लिये एक भोज देगा। भोज में उत्तम भोजन और दाखमधु होगा। दावत में नर्म और उत्तम माँस होगा।

7
 וּבִלְעָ וְהַמִּסְכָּה וְהַנְּסוּכָה הָעַמִּים כָּל- עַל- הַלְּוֹט הַלְּוֹט פְּנִי- הַזֶּה בְּהַר יְהוָה
 और-निगल-जाएगा और-आवरण लोगों सब- पर- परदा परदे-का मुख- इस पर-पर्वत और-निगल-जाएगा
[H5259](#) [H3605](#) [H3874](#) [H3875](#) [H6440](#) [H2088](#) [H2022](#) [H1104](#)

עַל- כָּל- הַגּוֹיִם:
 पर- सब- जातियों
[H3605](#)

किन्तु अब देखो, एक ऐसा पर्दा है जो सभी जातियों और सभी व्यक्तियों को ढके है। इस पर्दे का नाम है, "मृत्यु।"

8
 בָּלַע הַמָּוֶת לָנֶזֶחַ וּמָחָה אָדָנִי יְהוָה רַמְעָה מֵעַל כָּל- פְּנִים וַחֲרַפְתָּ
 निगल-जाएगा मृत्यु-को सदा-के-लिए और-पोछ-देगा और-पोछ-देगा आदोनाई यहोवा आँसू से-ऊपर मुखों और-निदा
[H1104](#) [H4194](#) [H5331](#) [H0136](#) [H3069](#) [H1832](#) [H3605](#) [H6440](#) [H2781](#)

עַמּוֹ יְסִיר מֵעַל כָּל- הָאָרֶץ כִּי יְהוָה דִּבֶּר: פ
 प्रजा-अपनी-की हटाएगा से-ऊपर सारी- पृथ्वी क्योंकि यहोवा यहोवा है-बोला- है
[H5493](#) [H3605](#) [H0776](#) [H3068](#) [H1696](#)

किन्तु मृत्यु का सदा के लिये अंत कर दिया जायेगा और मेरा स्वामी यहोवा हर आँसू का हर आँसू पोछ देगा। बीते समय में उसके सभी लोग शर्मिन्दा थे। यहोवा उन की लज्जा का इस धरती पर से हरण कर लेगा। यह सब कुछ घटेगा क्योंकि यहोवा ने कहा था, ऐसा हो।

9
 וְאָמַר בְּיוֹם הַהוּא הִגַּה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה וַיִּשְׁיַעֲנוּ לָהּ וַיִּשְׁיַעֲנוּ לָהּ קִינֵנוּ לָהּ וַיִּשְׁיַעֲנוּ לָהּ
 और-कहेगा मैं-दिन में-दिवस देखी उस एलोहीम-हमारा यह हमने प्रतीक्षा-की-हमने उसकी प्रतीक्षा-की-हमने यहोवा
[H0559](#) [H3117](#) [H1931](#) [H2009](#) [H0430](#) [H2088](#) [H3467](#) [H2088](#)

יְהוָה קִינֵנוּ לָהּ נְגִילָה וְנִשְׁמָחָה בִּישׁוּעָתוֹ:
 यहोवा प्रतीक्षा-की-हमने उसकी आनंदित-हों और-मगन-हों मैं-उद्धार-उसके
[H3068](#) [H1523](#) [H8055](#) [H3444](#)

उस समय लोग ऐसा कहेंगे, "देखी यह हमारा परमेश्वर है! यह वही है जिसकी हम बाट जोह रहे थे। यह हमको बचाने को आया है। हम अपने यहोवा की प्रतीक्षा करते रहे। अतः हम खुशियाँ मनायेंगे और प्रसन्न होंगे कि यहोवा ने हमको बचाया है।"

10
 כִּי- תִנּוּחַ יָד- יְהוָה בְּהַר יְהוָה תִּנּוּחַ יָדוֹ וַיִּשְׁיַעֲנוּ לָהּ וַיִּשְׁיַעֲנוּ לָהּ מוֹאָב וְנָדָשׁ וְנָדָשׁ מוֹאָב וְנָדָשׁ
 क्योंकि- टिकेगा हाथ- यहोवा-का इस पर-पर्वत यहोवा-का हाथ- टिकेगा मोआब और-रौंदा-जाएगा इस पर-पर्वत यहोवा-का हाथ- टिकेगा जैसे-रौंदा
[H5117](#) [H3027](#) [H3068](#) [H2022](#) [H2088](#) [H1758](#) [H4124](#) [H8478](#) [H1758](#)

מִתְּכֵן (בְּמוֹ) מְדַמְנָה:
 भूसे-का — में- खाद-के-गड्डे
[H4963](#) [H4325](#) [H1119](#) [H4087](#)

इस पहाड़ पर यहोवा की शक्ति है मोआब पराजित होगा। यहोवा शत्रु को ऐसे कुचलेगा जैसे भूसा कुचला जाता है जो खाद के ढेर में होता है।

11
 וּפָרַשׁ וַיִּדְוֶה בְּקִרְבּוֹ כְּאִשֶּׁר יִפְרָשׁ הַשְּׁחָה לְשָׁחֹת וְהַשְּׁפִיל וְנָאֲוָתוּ
 और-फैलाएगा हाथ-अपने मैं-बीच-उसके जैसे फैलाता-है तैराक तैरने-के-लिए और-नीचा-करेगा घमंड-उसका
[H6566](#) [H7130](#) [H3027](#) [H6566](#) [H7811](#) [H7811](#) [H7811](#) [H8213](#) [H1346](#)

עַם אֲרָבוֹת יִדְוֶה:
 साथ हिलाने हाथों-अपने-के
[H0698](#) [H3027](#)

यहोवा अपने हाथ ऐसे फैलायेगा जैसे कोई तैरता हुआ व्यक्ति फैलाता है। तब यहोवा उन सभी वस्तुओं को एकत्र करेगा जिन पर लोगों को गर्व है। यहोवा उन सभी सुन्दर वस्तुओं को बटोर लेगा जिन्हें उन्होंने बनाये थे और वह उन वस्तुओं को फेंक देगा।

ס	עָפָר :	עֶדֶר-	לְאָרֶץ	הִגִּיעַ	הִשְׁפִּיל	הִשָּׂא	חִוּמוֹתֶיךָ	מִשְׁנֵב	וּמִבְּצָר	12
—	धूल	तक-	तक-भूमि	पहुँचाया	नीचा-किया	झुकाया	दीवारों-तेरी-की	ऊँचाई-की	और-गढ़	
	H6083	H5704	H0776	H5060	H8213	H7817	H2346		H4013	

यहोवा लोगों की ऊँची दीवारों और सुरक्षा स्थानों को नष्ट कर देगा। यहोवा उनको धरती की धूल में पटक देगा।